

G. K. CONSULTANTS LIMITED

PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING Web: gkconsultantsltd.com, CIN: L74140DL1988PLC034109 302, G. K. HOÚSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH, NEW DELHI-110065. INDIA

PHONE: 26489299, 26489431 FAX: 011-26489299

E-mail: akg_gkcl@yahoo.co.in

CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT, BSE Limited, 14th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Sub.: Compliance under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Reg.: G. K. CONSULTANTS LIMITED

Respected Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith the copy of advertisement published in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) both dated 02^{nd} day of July, 2021 with regard to Submission of audited Financial Results for the Quarter Ended and Year ended 31.03.2021.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly,

For G. K. CONSTITUTED

(CS. SHILPA VERMA) COMPAN SOCREO Mem No.: FCS 19105

Date: 02.07.2021

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS

RITZ MERCANTILE LIMITED

Registered Office: 603, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-110008 (India) CIN: L52110DL1985PLC019805, Ph. No.: 011-25742255 Website: www.ritzmercantile.com, e-mail: ritzmercantilelimited@gmail.com

Particulars	Quarter ended 31.12.2020	Quarter ended 31.12.2020	Year ended 31.03.2021	Year ended 31.03.2020
Total income from Operations (Net)	78,887	4,685	85,523	274,059
Net Profit/Loss from Ordinary Activities after Tax	(188,677)	(534,318)	983,578	4,364,408
Net Profit/Loss from Ordinary Activities after Tax (after Extraordinary items)	109,452	(534,318)	(685,449)	3,278,634
Equity Share Capital	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of Previous year	9,648,547	9,539,102	9,648,547	10,333,996
Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)	NO STATE OF	900000.7	104000H	1970-0100
Basic	0.10	-0.51	-0.65	4.16
Diluted	0.10	-0.51	-0.65	4.16
Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)				
Basic	0.10	-0.51	-0.65	4.16
Diluted	0.10	-0.51	-0.65	4.16

1. The above results were reviewed and recommended for adoption by the Board Meeting

and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on June 30, 2021 During the Quarter ended 31st March, 2021 No investor complaints was received. There was no Complaint pending at the beginning or end of the Quarter/Period. 3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results

filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same is available on the Stock Exchange website "www.cse-india.com", "www.msei.in" and Company's website "www.ritzmercantile.com". 4. The figures of the Quarter ended 31 March, 2021 and 31 March, 2020, are balancing

published year to date unaudited figures upto the third Quarter of the Financial Year ended 31 March, 2021 and 31st March, 2020. Figures pertaining to previous period/year have been regrouped, recast, reclassified

figures between the audited figures in respect of the full Financial Year and the

whereever necessary. For Ritz Mercantile Ltd

Garvit Singhvi Place: New Delhi Whole-Time Director Date: 30.06.2021 DIN: 00597757

PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S VIRTUAL BUSINESS SOLUTION PRIVATE LIMITED

	RELEVANT	PARTICULARS
1.	Name of corporate debtor	M/s Virtual Business Solution Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	30.08.2012
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated /registered	Registrar of Companies-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74900DL2012PTC241315
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered office: 5/6, Second Floor, West Patel Nagar, Delhi-110008
6.	Insolvency commencement date respect of corporate debtor	25.06.2021 (Order Passed by Hon'ble Adjudication Autority in Company Petition NoIB- 26/PB/2021received through mail on 30.06.2021)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	27.12.2021 which is 180 days from the date of order passed by Hon'ble Adjudicating Authority and received by IRP on 30.06.2021
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Regd Add: 411, 4th Floor, Essel House, Asaf Ali Road, New Delhi -110002 Email ID: vinaysinghal.ip@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 411, 4th Floor, Essel House, Asaf Ali Road, New Delhi -110002 Email ID: irp.virtual@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	14.07.2021
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable as information available with IRP

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Virtual Business Solution Private Limited vide its order dt. 25.06.2021

https://ibbi.gov.in/home/downloads

The creditors of Virtual Business Solution Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before14.07.2021to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of

authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Interim Resolution Professional

LCRD Division / New Delhi Federal Towers, Upper Ground Floor, 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008

Date: 02.07.2021

Place: New Delhi

13. Names of Insolvency Professionals

14. (a)Relevant Forms and

available at:

identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)

(b)Details of authorized representatives are Not Applicable

FEDERAL BANK

Regn.No- IBBI/IPA-02/IP-N00624/2018-19/11880

Virtual Business Solution Private Limited

Vinay Kumar Singhal

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule

3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

of the following property.

Ph No.011-40733977, 78, 79, & 80

(1) Mr. Sunil Kalra S/o Mr. Surinder Pal and (2) Mrs. Kirti Kalra W/o Mr. Sunil Kalra both residing at House No 1624, Upper

Floor, Guru Ram Dass Colony, Near Mohini Resorts, Sector 39, Focal Point

Ludhiana-141010, Punjab. The 1" of you as principal borrower and 2" of you as guarantors/co-obligants / coborrowers availed of from our Bank's Ludhiana / Ferozpur Road branch credit facilities i.e. Federal Personal Car Loan of Rs.6,30,000/- (Rs. Six Lakh Thirty Thousand Only) on 06.09.2018 after executing necessary security agreements

loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, you has a have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTY Hypothecation of Brand New HYUNDAI GRAND i-10 MAGNA 1.2 GLS A/T STAR

Registration Number- PB 91 B 3827 Engine No.- G4LAJM982879, Chasis No.-MALA851CMJM890890

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as "the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 4,48,233/- (Rupees Four Lakh Forty-Eight Thousand Two Hundred Thirty-Three only) is due from you jointly and severally as on 28.05.2021 under your Federal Personal Car Loan Account No. 19197400000561 with Ludhiana / Ferozpur Road branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 30.03.2021 (Identified date) as per the guideline of RBI.

You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @ 8.10% and penal interest @ 2% per annum with monthly rests till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for

realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the

secured assets (security properties). This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

This notice was issued on 28.05.2021 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per SARFAESI Act, 2002.

For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President-I Dated this the 30" Day of June 2021 (Authorised Officer under SARFAESI Act)

financialexp, epap.in

Eleanor Realty Holdings India Private Limited

Registered Office: Flat No-588, Pocket-4, Sector -11, Dwarka, New Delhi-110075 Email Id: compliance@pinehurstgolflinks.com | Website: www.x-officeparks.com CIN: U70200DL2017PTC314477 | Contact: +91-9871130831 Audited Financial Results - for the financial year ended 31st March 2021

Ču.	Rs, in Lakhs						
SI. No.	Particulars	Current accounting year ended	Previous accounting year ended				
		31/03/2021	31/03/2020				
1.	Total Income from Operations	5,587.91	2,556.72				
2.	Other Income	48.17	11,89				
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	939.38	(1,795.79)				
4.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	939.38	(1,795.79)				
5.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,255.18	(1,800.68)				
6.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,255.18	(1,800.68)				
7.	Paid up Equity Share Capital	10	10				
8.	Reserves (excluding revaluation/revenue reserve)	(1,561.74)	(2,816.92)				
9.	Net worth	(1,551.74)	(2,806.92)				
10.	Paid up Debt Capital	30,657.42	33,558.11				
11	Outstanding Redeemable Preference Shares		Anna Tillian				
12.	Debt Equity Ratio *	(19.76)	(11.96)				
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	3/2/1/(1/414	THE PROPERTY OF THE				
	1. Basic:	1,255.18	(645.41)				
	2. Diluted:	449.89	(645.41)				
14.	Capital Redemption Reserve		84 5) 34				
15.	Debenture Redemption Reserve *		*				
16.	Debt Service Coverage Ratio *	1.01	0.51				
17.	Interest Service Coverage Ratio *	1.25	0.51				

Notes: a) The aforesaid results are approved by Board of Directors at its meeting held on 30" June, 2021 b) The Company has not created Debenture Redemption Reserve as the same is not required in terms of Rule 18/7)

of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 as amended. ** Definition of ratio / formulas used for actual computation, are as follows:

Paid up debt capital/ (Equity share capital + Equity component of convertible debentures + 1. Debt/Equity Ratio Reserve and surplus excluding earmarked reserves) Earnings before interest and tax for the period/year)/ ((Interest Expense for the period/year) + 2. Debt Service Coverage Ratio (Principal repaid (net of receipts) of the borrowings during the period/year) 3. Interest Service Coverage Ratio : (Earnings before interest and Tax for the period/year)/(Interest Expense for the period/year)

For Eleanor Realty Holdings India Private Limited Date : 01" July, 2021 Place: New Delhi Neeraj Kumar (Director)

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2021

		Quarter Ended	Year Ended			
PARTICULARS	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total Income From operation(net)	335.14	81.37	672.32	472.19	911.92	
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	49.72	-58.68	-43.33	-70.85	19.60	
Net Profit/(Loss) for the period after tax	68.13	-58.68	-48.00	-52.43	14.93	
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531,18	531,18	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	120.40	52.27	172.83	120.40	172.83	
Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)			0			
Basic and diluted (Rs.)	1.28	-1.10	-0.90	-0.99	0.28	
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
Basic and diluted (Rs.) (EPS for the period not annualised)	1.28	-1.10	-0.90	-0.99	0.28	
	+					

NOTES:-

1. The above financial results for the quarter ended and financial year ended on March 31, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of of Directors at its meeting held on 30° June, 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Financial Results Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on

company's website www.gkconsultantsltd.com. By Order of the Board

(Divya Malini Gupta) Place: New Delhi Director DIN: 0006225 Date : 30.06.2021

CSJ INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Plot No 178-178A, Industrial Area, Phase 1, Chandigarh- 160002 TTel. No. 0172-6766811, E-mail: sapna.srivastava@nexusmalls.com, website: www.elante.com

CIN: U70101CH2006PTC029576 Statement of audited standalone financial results for the year ended 31 March 2021

	Statement of addited standard	Statement of audited standarone mancial results for the year ended			
Sr. No.	Particulars	Half year ended on 31 March 2021 (Audited)	Half year ended on 31 March 2020 (Audited)	Year ended on 31 March 2021 (Audited)	Year ended or 31 March 2029 (Audited)
1	Total Income from operations	1,339.36	1,646.67	2,004.26	3,286.87
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(135.27)	(211.01)	(713.73)	(139.90)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(135.27)	(211,01)	(713.73)	(139.90)
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (Exceptional and/or Extra-ordinary items)	(286.81)	22.92	(794.55)	311.27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	(286.50)	22.76	(794.25)	311.24
6	Paid Up Equity Share Capital			466.67	466.67
7	Other Equity			8,709.94	9,504.19
8	Net Worth			9,176.61	9,970.86
9	Paid Up Debt Capital/Outstanding Debt			13,855.66	13,652.74
10	Debt Equity Ratio			1.51	1.37
11	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discountinued operations)*- (a)Basic	(6.15)	0.49	(17.03)	6.67
	(b) Diluted	(6.15)	0.27	(17.03)	3.65
12	Debenture Redemption Reserve	19500000		19.76	19.76
13	Debt Service Coverage Ratio			0.80	1.15
				100000000000000000000000000000000000000	7.000

For and on behalf of Board of Directors Place: Chandigarh CSJ Infrastructure Private Limited Date: 30.06.2021

Interest Service Coverage Ratio

Place : Delhi

DATE: 30.06.2021

Siddharth Nawal Notes:-Director (DIN 07916449) a.) The above is an extract of the Annual Audited financial results filed with Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and

Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange. b.) For the items referred in sub-clause (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, the pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed at www.bseindia.com.

Nidhi Services Limited

Regd. Off: 5/19-B, Roop Nagar, Delhi - 110007 Tel.: 011-43215145, Mobile: 09811021216, CIN: L65999DL1984PLC018077, E-mail: nidhiservicesItd@gmail.com

SI. No.	Particulars	Current Quarter ending 31-Mar-21	Year to date Figures 31-Mar-21	Corresponding 3 months ended in the previous year 31-Mar-20
1	Total Income from Operations	7.54	26.03	9.30
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.65	12.55	7.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items#)	2.65	12.55	7.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2.65	11.10	3.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.65	44.24	3.32
6	Equity Share Capital	150.00	150.00	150.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		288.15	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1) Basic: 2) Diluted:	0.18 0.18	0.74 0.74	0.22 0.22

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record by the Board in its meeting held on June 30, 2021 and also Audit Report were carried out by the Statutory Auditors.

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's Website i.e (www.nidhiservicesltd.com) and on the website of the Stock Exchange (www.cse-india.com) and (http://www.msei.in/index.aspx)

For Nidhi Services Limited

Udit Agarwal Whole Time Director DIN: 00239114

0.97

1.44

SHIVAMSHREE BUSINESSES LIMITED CIN: L01403DL1983PLC015704

Regd Office: A-31, Gali No. 2, MadhuVihar, Hanuman Mandir Delhi-110092 Co. Office: F-12, 1st Floor, PushpakAppt, Opp. Ratnakar-6, Jodhpur Gam, Satellite, Ahmedabad-380015 Ph. No.: +91 79 40063353. Email: info@shivamshree.com. Website: http://www.shivamshree.com. EXTRACT OF AUDITED/UNAUDITED STANDALONE FINACIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31" MARCH, 2021 (Rs. In lakhs)

Quarter Ended Year Ended 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 Particulars (AUDITED) (AUDITED) (AUDITED) (AUDITED) (AUDITED) Total Income From Operations 0.91 5.38 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional (0.76)(1.48)(3.59)(5.41)(12.75)and/or Extraordinary item) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional (0.76)(1.48)(3.59)(12.75)and/or Extraordinary item) (5.41)Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary item) (0.77)(0.55)(0.96)(3.82)(10.12)Total Comprehensive income for the period Comprising profit for the period (after tax) and other (0.77)(0.55)(0.96)(10.12)(3.82)comprehensive Income (after tax) 6. Equity Share Capital 456.50 456.50 456.50 456.50 456.50 Earnings Per Share (of Rs.1/-each) (for continuing and discontinuing operations) (0.00) (0.01) (0.00)

Notes

The results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on June 30, 2021. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results are available on

the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.shivamshree.com)

For, Shivamshree Businesses Limited

Prafulbhai P. Bavishiya Place: Ahmedabad Date: June 30, 2021 DIN: 01908180

ALIROX ABRASIVES LIMITED CIN:-L74899DL1944PLC000759

Regd. Office: 4, SCINDIA HOUSE, NEW DELHI-110001 Phone:-911123457100, Website: www.alirox.com **EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(Rs. in lacs)

1	(ns. iii lacs)							
Нr	S.	Particulars	S	TANDALON	1E	C	ONSOLIDAT	ED
ı	No		Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended 31 03 2021	Quarter Ended	Quarter Ended 31.03.2020	Year Ended
ш				Unaudited			Unaudited	
Ш								
П	1	Total Income from operations	15.60	12.10	45.60	24.60	21.10	54.60
ŀ	2	Net Profit/(Loss) for the period(before tax Exceptional and/or Extraordinary items.)	(1.83)	9.54	(6.91)	(0.22)	11.20	(5.28)
1	3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items.)	(1.83)	9.54	(6.91)	(0.22)	11.20	(5.28)
8	4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items.)	(1.48)	10.39	(4.62)	(0.24)	11.66	(3.36)
ľ	5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)		(808.14)	2,821.38	1,282.70	(806.87)	2,822.64
ŀ	6	Paid-up equity share capital (Face Value Per Share Rs. 10/-)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Н	7	Other Equity Excluding Revaluation Reserves						
	8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)						
	-	(a) Basic	(0.62)	4.33	(1.92)	(0.10)	4.86	(1.40)
ŀ		(b) Diluted	(0.62)	4.33	(1.92)	(0.10)	4.86	(1.40)

1 The above results have been reviewed by the Audit Committee of Board and subsequently approved by the Board of Directors on 30th June, 2021.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results is available on the stock exchange websites, www.msei.in and on the Companies website www.alirox.com.

The Financial Results of the Company have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013

For Alirox Abrasives Limited

Leena Rawa

Place: New Delhi Dated: 30th June.2021 Whole -Time Director & CEO DIN:03575675

IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792 Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai - 600031.



Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgageof their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr. No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13(2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13(2) Notice	Property Address
1.	16288445 & 24955252	Against	Rohtash Kumar Rajbir Singh Shri Ram Tractor Workshop C/o Rohtash Kumar (Proprietor)	20-04-2021		All That Piece And Parcel Of Prperty Plot Comprised in Khasra No. 4295/3/2, Rakba 2 Biswe, Situated in Mangal Colony, Near Chand Sarai (Inside Nagar Palika), Tehsil and District Karnal, measuring 2 Biswe//45'x18'//90 sq. yards (approximately), and Bounded as: North: Other's Property, East: Plot Of Sh. Babu Ram(18'-00"), South: Street (45'-00"), West: Street (18'-00")

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESIAct, against the mortgaged properties mentioned herein above to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Authorised Officer **IDFC First Bank Limited**

Date: 02-July-2021 Place: Karnal

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

SAIJA FINANCE PRIVATE LIMITED SAIJA

Read Office: F-128, 3rd Floor, Mohammadour, R.K. Puram, New Delhi - 110066 CIN: U65929DL1997PTC089892

Statement of Audited Financial Results for the year ended as at 31 March 2021

(Amount in Rs. Lacs)

Audited 2,462,68 (3,329.40)	Audited 4,345.80	Audited 5,882,29	Audited 9,446,30
19100000000	7000000	5,882.29	0.446.20
(3,329.40)	(47.42)	71.50-005-0-0-0-0	3,440.30
	(17.43)	(3,243.56)	411.33
(3,329.40)	(17.43)	(3,243.56)	411.33
(3,309.88)	(16.90)	(3,250.53)	230.13
(3,351.25)	17.87	(3,273.36)	268.11
5,546.45	5,546.45	5,546.45	5,546.45
(2,183.18)	1,090.16	(2,183.18)	1,090.16
3,363.27	6,636.61	3,363.27	6,636.61
17,142.47	24,897.95	17,142.47	24,897.95
72	8.7	-	227
5.10	3.75	5.10	3.75
(6.04)	0.03	(5.86)	0.41
(6.04)	0.03	(5.86)	0.41
07	1/5/		147
-			
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	(3,309.88) (3,351.25) 5,546.45 (2,183.18) 3,363.27 17,142.47 5.10 (6.04) (6.04)	(3,309.88) (16.90) (3,351.25) 17.87 5,546.45 5,546.45 (2,183.18) 1,090.16 3,363.27 6,636.61 17,142.47 24,897.95 5.10 3.75 (6.04) 0.03 (6.04) 0.03 Not applicable Not applicable	(3,309.88) (16.90) (3,250.53) (3,351.25) 17.87 (3,273.36) 5,546.45 5,546.45 (2,183.18) 1,090.16 (2,183.18) 3,363.27 6,636.61 3,363.27 17,142.47 24,897.95 17,142.47

Not annualised

Notes:

 a) In accordance with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published financial results for the half year / year ended 31 March 2021. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30 June 2021.

The above is an extract of the detailed format of the half yearly / annual results filed with the Bombay Stock Exchange ('BSE') under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and is also available on the Company's website www.saija.in.

For the items referred to in the sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been separately made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on www.bseindia.com.

The above have not been disclosed since it is not required as per Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Previous period/year figures have been regrouped / reclassified to conform to the current period classifications, wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors of Saija Finance Private Limited Shashi Ranjan Sinha Chairman cum Managing Director

New Delhi

Place : New Delhi Date: 30 June 2021

DIN No: 00917884

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013 ▼ ▼ पांचा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर-भाग 2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

चल सम्पात का बिक्रा हतु विक्रय सूचना

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के तहत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनिर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है. कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कल राशि की वसली हेत ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार पर 10 अगस्त, 2021 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

एतद्वारा सचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनपस्थिति में. आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा शाखा पता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल, लाजपत नगर, भाग-2, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर 2 बजे अफ. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मृहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास 9 अगस्त, 2021 को 6 बजे अप. तक जमा करना है।

प्रतिभव आस्त्र अचल समानि की बिकी ''जहाँ है जैसे है प्रिशति'' में तीचे वर्णित संक्षिप्त विकाणों के अनुसार की जायेगी

प्रातभूत अ	॥स्त/अचल सम्पात का	ाषक्रा जहां हे जस है।स्थात में ना	व वाणत साक्षप्त ।ववरण	।। क अनुसार का जायग	II :
क्र.सं.	ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/सह- कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार बकाया देय तथा माँग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	9320715	श्री चन्द्र मोहन साहनी (कर्जदार), श्रीमती प्रिया साहनी (सह-कर्जदार), श्री करन साहनी (सह-कर्जदार), श्री जसबीर सिंह (जमानती)	28.07.2020	₹. 41134500/-	रु. 4113450/−
अचल सम्	पत्ति का विवरण : सम्प	त्ते मकान नं. के-52-ए, कालकाजी, नः	ई दिल्ली-110019 का	सम्पूर्ण भाग, माप 100.	वर्ग गज
2.	10655536	श्री विजय कुमार (कर्जदार) श्रीमती बबीता देवी (सह-कर्जदार)	₹. 5235178/- 18.01.2020	₹. 4988794/-	₹. 4,98,880/-

अचल सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का बिल्ट अप प्रथम तल, सं. ए-12, माप भूमि/कवर्ड एरिया 107.56 वर्ग मीटर अर्थात 128.65 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, सीलिंग लेवल की सीमा तक (अर्थात न तो इसका भृतल न इसकी अपर स्टोरीज शामिल हैं, स्टेयरकेस, एन्ट्रेस, मेन गेट, पैसेज, वाटर टैंक इंस्टाल/रिपेयर करने के अधिकार, टीवी एन्टीना टॉप फ्लोर के छत पर भूमि में आनुपातिक अधिकार तथा इंपार्टिबल वस्तुएँ जो कॉॅंमन रहेंगी, को छोड़कर), तीन रूम सेट, बिजली, पानी टोंटी और उनके मीटर से यक्त. लेआउट प्लान कृष्णा नगर एक्सटेंशन, ग्राम घोंडली के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित। सीमाएँ : पर्व : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : रास्ता, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति।

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) के एतद्वारा इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भावी ब्याज सिंहत कुल बकाया भगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनसची में वर्णित बकाये. ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह

ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी।

ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://disposalHub.com के माध्यम से 10 अगस्त, 2021 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जायेगी। 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ट जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा मे किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अचल सम्पत्ति को अधिकृत प्राधिकारी के विवेकानुसार फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।

2. आरक्षित मुल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी।

कर तथा अपवादित मदों से पूर्व निवल लाभ

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी

नई दिल्ली

|30 जून, 2021

Place: New Delhi Date : 30-06-2021

www.readwhere.com

कर पश्चात निवल लाभ (अपवादित मदों के पश्चात)

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) [*वार्षिकीकृत नहीं]

अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निवदाओं के साथ ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में देय शाखा कार्यालय में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट नीलामी के पश्चात वापस लौटा दिया जायेगा।

5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा बशर्ते वे कानुनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मुल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।

6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 3 अगस्त, 2021 को 11 बजे पुर्वा. से 5.00 बजे अप. तक किया जा सकता है।

8. सफल संविदाकार घोषित किये गये क्रेता को ऐसी घोषणा के तुरन्त बाद 24 घण्टों के भीतर प्राधिकारी अधिकारी के पास क्रय मल्य/संविदा का पच्चीस प्रतिशत जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी, भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से निजी सन्धि द्वारा नीलामी/बिक्री की जायेगी।

9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मुल्य का भगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पृष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या खिवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकत अधिकारी के पास करना होगा 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चुक करने पर नीलामी/बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर

करने वाले केता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरण : उपर्युक्त तालिका के अनुसार। इच्छुक संविदाकारों को सांविधिक दायित्व सम्पत्ति कर, बिजली आदि के बकायों सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पृछताछ कर लेने का परामर्श दिया

से बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चक

12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता #203, दूसरी मंजिल, स्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5, क्रॉसिंग रेलवे रोड, गुरुग्राम-122 006 से इसके मोबाइल नं. +91 97100 29933, +91 98100 29926, दूरभाष नं. +91 124 4 233 933, ई-मेल आईडी : CSD@disposalhub.com अथवा अरिजीत भट्टाचार्य से ई-मेल आईडी : arijit.bhatt@tatacapital.com अधिकृत प्राधिकारी तथा मोबाइल नं. 9029073280 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पृछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9029073280 पर करें।

13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। यह भगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14.. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://bit.ly/2U6ZYfv में प्रावधानित लिंक देखें। नोट-टीसीएचएफएल ने इस सम्पत्ति की बिक्री/नीलामी हेतु उल्लिखित नीलामी साझेदार के अतिरिक्त किसी ब्रोकर/एजेंट को नहीं नियुक्त किया है। इच्छक संविदाकार केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत प्राधिकारी से इस मामले में सभी पृछताछ एवं जानकारी के लिए सम्पर्क करें स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 01.07.2021 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हरियाणा कोटेड पेपर्स लिमिटेड

कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : U21093DL1971PLC005669 पंजी. कार्यालय : 284, सुल्तान सदन, एल-3, वेस्टएंड मार्ग, सईदुलअजब, नई दिल्ली-110030 टेलीफोन एवं फैक्स : 011-29534610

कम्पनी के इक्विटी शेयर्स के लिए एनएसढीएल तथा सीढीएसएल में डीमैट आईएसआईएन INE953KO1011 है

शेयरधारकों हेत् सूचना – विवरण अद्यतनीकरण (तदद्वारा हरियाणा कोटेड पेपर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित और नियत की जाने वाली किसी तिथि को, कोविड-19 फैलने को ध्यान में रखते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो | विजअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित करने के लिए सक्षम बनाने के संबंध में कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमानुसार को जारी जनरल सर्कलर नंबर 20/2020 तथा जनरल सर्क्लर नंबर 02/2021 के अनुसार विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचना दी जाती है।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना नवीनतम ई-मेल पता, आवास पता, फोन नंबर, बैंक खाता विवरण तथा स्थायी खाता क्रमांक (पैन) दस्तावेजी सबत के साथ रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेन्ट ("आरटीए") अधवा ठिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं) अथवा कम्पनी के पास (यदि शेयर मीतिक रूप में घारित हैं) यथाशीच्र अथवा 07 जुलाई, 2021 से पहले पंजीकत / अद्यतन करवा लें।

(1) आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड को 011-26387320/ 9999553356/ 9910502617 पर कॉल करें अधावा उकदंपत / तबडबकमसीपण्यवच पर ई-मेल करें। (2) श्री मोहम्मद रफीक सीनियर अकाउन्टेंट को 9313768259 पर सम्पर्क करें

अधवा hhsdel@jeplin.in/ mdrafique1363@gmail.com पर ई-मेल सदस्यों से सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी उद्धत करने का अनुरोध किया जाता है। जो शेयरधारक ये विवरण

उपरोक्त तिथि से पहले उपलब्ध नहीं करवाएंगे अधवा उनकी पृष्टि नहीं करेंगे, वे ई-मेल द्वारा एजीएम दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा एजीएम में अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। वास्ते हरियाणा कोटेड पेपर्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

प्रेम पटनायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विधि : 01-07-2021 दीआईएन : 00043564 एमको इंडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC029035 पंजीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं. 7, जीएफ, झंडेवालान रोड, रेकसीन बाज़ार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301, फोन नं : 0120-4601500 फैक्स नं :120-4601548

ई-मेल : amco.india@ymail.com, चेबसाइट : www.amcoindialimited.com 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

विवरण		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष		
63 3d 58 Rd	31.03.2021 लेखापरीक्षित	31.12.2020 अलेखापरीक्षित	31.03.2020 लेखापरीक्षित	31.03.2021 लेखापरीक्षित	31.03.2020 लेखापरीक्षित
परिचालनों में कुल आय (निवल)	2960.17	2557.02	2,028.25	8965.86	8619.56
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	55.74	58.64	(45.03)	191.52	125,16
कर पूर्व अवधि के लिए निवक लाभ / (हानि) (अपवादात्म और / या अतिविशिष्ट नदों के बाद)	55.74	58.64	(45.03)	191.52	125.16
कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाम / (डानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	47.10	42.94	(37.83)	147.20	88.11
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (पर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल	22.11	43.67	(37.83)	124.40	91.40
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकति मूल्य रु 10 / - प्रत्येक)	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10
अन्य इक्विटी	2606.64	2620.65	2,482.24	2606.64	2,482.24
अर्जन प्रति शेयर (रु 10 / - प्रत्येक) : मूल एवं तनुकृत	1.15	1.04	(0.92)	3.58	2.14

क) इन वित्तीय परिणामों की 30 जुन 2021 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक गंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ख) उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्कताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचें जों में दाखिल किए गए (31,03,2020) को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। कथित तिमाही एवं वार्षिक वितीय परिणामो का पुरा प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com पर उपलब्ध है।

परिचालनों से कुल आय (शृद्ध)

असाधारण मदों से पर्व)

असाधारण मदों के बाद)

असाधारण मदों के बाद)

आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)

(जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)

इक्विटी शेयर पुंजी

तरलः

टिप्पणी:

विवरण

अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा (110.66)

कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा (110.66)

कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथव) (110.66)

अवधि हेत् कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) लाभ/ (हानि) (110.66)

आरक्षित (पर्व वर्ष के अंकेक्षित तलन पत्र के अनसार पनर्मल्यांकर्न

द्वारा उदघाटित किया जायेगा। ग) खंड रिपोर्टिंग का प्रावधान लाग नहीं है।

तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)

कृती एमको इंडिया लिमिटेट हस्ता/ स्रेन्दर कुमार गुप्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ढीआईएन : 00026609

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं. 701-ए, 7वाँ तल, जीडी-आईटीएल टावर, प्लॉट नं. बी-8,

नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034

फोन: 0120-4614300, ई-मेल: office@applegroup.co.in

31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाख में, प्रति शेयर डाटा को छोडकर)

रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम) आईएन स. यु64202डीएल2000जीओआई107906

रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित खंडी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ओएफसी अनुरक्षण टीम की नियुक्ति हेतु योग्य बोलीदाताओं र -निविदाएं ऑमंत्रित की जाती हैं: सोनीपत-पानीपत-करनाल, पानीपत-रोहतक गानीपत-सफीदों, करनाल-क्रुक्केन्न-अम्बाला, कुरूक्षेत्र-कैथल-नरवाना खंड के लिए रेंबरेल / निविदा / ओटी / एनआर / ओएंडएम / 2021-22/9 (2) रोहतक-जीद-जाखल, जीद-सफीदों के लिए रेलटेल / निविदा / ओटी / एनआर / ओएंडएम / डीआरएम कार्यालय/ अजमेर -मीलवाडा -बेरच जंक्शन खंड के लिए रेलटेल / निविदा / ओटी / एनआर / ओएंडएम / 2021–22 / 7 (४) सरहिद—लुधियाना—जालबर–दसुआ— पठानकोट वे लिए रेलटेल/ निविदा/ ओटी/ एनआर /ओएंडएम/2021-22/8 निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com पर उपलब्ध हैं। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट में ही

(प्रति शेयर डैटा छोड़कर राशि लाखों में)

31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

350.00

3.26

3.26

3.26

3.26

600.61

1116.65

(0.12)

(0.12)

समाप्त वर्ष

0.00

(108.77)

(108.77)

(88.93)

(88.93)

600.61

1040.87

(1.48)

(1.48)

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से

एपल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

1496.66

51.77

51.77

44.75

44.75

600.61

1129.81

0.48

0.48

समाप्त तिमाही

59.03

(7.39)

(7.39)

(7.39)

(7.39)

600.61

1127.25

(0.12)

(0.12)

600.61

1040.87

(0.18)

(0.18)

अपलोड किया जाएगा ।

दिनांक : 01.07.2021

आस्तियों की नीलामी हेतु सूचना एपल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसोसिएटेड एप्लियासेज लिमिटेड CIN: L27104DL1972PLC206966

सं.

कम्पनी का पंजी. कार्या.: डी-218, जीएफ, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 परिसमापक का पता: 83-बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार फेज-I, दिल्ली-110091 ईमेलः skbmica@gmail.com; सम्पर्क नं.: 011-43011782,

(परिसमापन में)

दिनांक : 30.06.2021

स्थान : नोएडा, यपी

ई-नीलामी: दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री नीलामी की तिथि एवं समय: 17 जुलाई, 2021 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 15 जुलाई, 2021 (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

आदेश तिथि 03 फरवरी, 2021 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ-III, दिल्ली द्वारा नियक्त परिसमापक के कब्जे में परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली एसोसिएटेड एप्लिएंसेस लि. (परिसमापन में) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म https://eauctions.org द्वारा आयोजित की जायेगी। (राशि रु. लाख में)

क्रम सं.	आस्तियों की प्रकृति	प्रस्तावित आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी राशि	संविदा वृद्धि राशि
1.	ए-194एल, फेज-I, एल्डेको एसआईडीसीयूएल इंडस्ट्रियल पार्क, सितारगंज पर स्थित भूमि तथा भवन, खसरा नं. 141 एवं 145, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तरांचल (भूमि क्षेत्रफल 5811.16 वर्ग मीटर तथा आरसीसी का बिल्ट अप एरिया- 31215 वर्ग फीट तथा शेड का 13885 वर्ग फीट)		20.50	2.00
2.	मारुति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सीएलयू प्लॉट सं. 1, सेक्टर 56ए, फरीदाबाद, हरियाणा पर स्थित फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित संयन्त्र तथा मशीनरी		0.50	0.20
3.	मर्सीडीज बेंज सी 200 सीजीआई (पंजीकरण सं. HR51BJ0459) मॉडल फरवरी, 2016, रंग : आई सिल्वर	16.00	1.60	0.25
	कुल	226.00	22.60	

तिथि: 02.07.2021

31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021

1,308.44

265.43

265.43

198.62

198.62

1473.85

1.35

1.35 *

लेखापरीक्षित

460.97

201.67

201.67

134.53

1,896.24

1473.85

2.86

2.86

लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित

1,850.51

625.63

625.63

451.59

451.59

1473.85

3.06

3.06*

स्थानः दिल्ली

सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 365, वर्धमान प्लाजा, तीसरी मंजिल, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085, दूरभाष : 011-49091417,

सीआईएन : L51221DL1985PLC022433, वेबसाइट : www.sonalmercantile.in, ई-मेल आईडी : sonalmercantile@yahoo.ln

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैण्डएलॉन तथा समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31.12.2020 31.03.2020

लेखापरीक्षित

330.86

46.13

46.13

28.25

28.25

1473.85

0.19*

. उपरोक्त स्टैण्डएलॉन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजों में दाखिल किये गये 31 मार्च, 2021

को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के विस्तृत प्रारूप का सार है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाईट (www.sonalmercantile.in) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट

2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही तथा वर्ष के उपरोक्त स्टैण्डएलॉन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा बाद में 30 जून, 2021 को आयोजित उनकी

31.03.2021

460.97

201.68

201.68

71.96

71.96

1473.85

0.49*

बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। कम्पनी विधिक लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों पर असंशोधित लेखापरीक्षा विचार व्यक्त किए हैं।

(लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित)

471.42

147.67

147.67

110.51

110.51

1473.85

0.75*

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार पर आयोजित होगी। 2. परिसम्पत्तियों, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा एवं अंडरटैकिंग फार्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के साधारण नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट https://eauctions.org पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री अंकित (मो.-9873694065), Ankit@claim-bridge.com अथवा परिसमापक कार्यालय

3. परिसम्पत्तियों की अनुमानित सूची बोली दस्तावेज में दी गई है। सम्पूर्ण विवरणों के लिए कृपया वेबसाईट eauctions.org से बोली दस्तावेज

. फैक्ट्री तथा अन्य परिसम्पत्तियों को देखने के लिए skbmica@gmail.com पर फोटो आईडी संलग्न करते हुए परिसमापक के कार्यालय

31.12.2020

(अलेखापरीक्षित)

147.67

110.51

664.28

1473.85

2.25*

2.25*

संदीप कुमार भट्ट परिसमापक पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N01064-C01/2017-18/10298

(रु. लाख में)

लेखापरीक्षित

1,308.44

265.22

265.22 191.39

847.45

1473.85

4.36

4.36

बोर्ड के आदेशानुसार

पूर्ण कालिक निदेशक

विक्रय गोयल

कृते सोनल मर्केन्टाइल लिमिटेड

31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020

1,850.51

625.63

625.63

451.59

3,219.80

1473.85

9.59

लेखापरीक्षित लेखापरीक्षित

330.39

156.94

156.94

144.13

576.18

1473.85

4.01

4.01

श्री राजबीर सिंह कोहली स्थानः दिल्ली तिथि: 30.06.2021 (निदेशक) DIN: 07802967

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास

दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट http::/www.applemetal.co.in पर उपलब्ध है। ख)

लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव फुट नोट

G. K. CONSULTANTS LIMITED Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar,

East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2021 (Rs. in Lakhs)

	4	Quarter Ended	Year Ended			
PARTICULARS	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020 (Audited)	
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)		
Total Income From operation(net)	335.14	81.37	672.32	472.19	911.92	
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	49.72	-58.68	-43.33	-70.85	19.60	
Net Profit/(Loss) for the period after tax	68.13	-58.68	-48.00	-52.43	14.93	
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	120.40	52.27	172.83	120.40	172.83	
Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
Basic and diluted (Rs.)	1.28	-1.10	-0.90	-0.99	0.28	
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)						
Basic and diluted (Rs.) (EPS for the period not annualised)	1.28	-1,10	-0.90	-0.99	0.28	

NOTES:-

 The above financial results for the quarter ended and financial year ended on March 31, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of of Directors at its meeting held on 30° June, 2021.

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Financial Results Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website www.gkconsultantsltd.com.

Place: New Delhi Date: 30.06.2021 By Order of the Board (Divya Malini Gupta) Director DIN: 0006225

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030 Website: www.tinna.in, email: investor@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26807073

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

		ATERN THE								-	Rs In lakhs)
S.	Particulars	STANDALONE CONSOLIDATED									
No.		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year Ended	
5.36604.586		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Un-audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	4,466.12	3,774.97	2,681.73	13,006.55	12,302.68	4,466.12	3,774.97	2,681.73	13,006.55	12,302.68
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	168.62	192.69	(215.77)	157.87	(544.12)	168.62	189.65	(256.45)	32.48	(639.86)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	168.62	192.69	(215.77)	157.87	(544.12)	168.62	189.65	(256.45)	32.48	(639.86)
4	Net profit/(loss) for the period after Tax(After Exceptional and / or Extra ordinary Items)	107.30	154.21	(144.52)	111.58	(388.68)	107.30	151.17	(185.20)	(13.81)	(484.42)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	117.81	154.65	(110.00)	123.30	(352,35)	117.80	151.28	(151.43)	(3.07)	(449.40)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48
7	Other Equity				6,161.02	6,037.72		0	100	5,819.76	5,822.83
8	Earning Per Share(face value of Rs 10)- each share) (for continuing and discontinued operation)					ű.					
	(a) Basic	1.25	1.80	(1.69)	1.30	(5.66)	1.25	1.77	(2.16)	(0.16)	(5.66)
	(b) Diluted	1.25	1.80	(1.69)	1.30	(5.66)	1.25	1.77	(2.16)	(0.16)	(5.66)

Notes: 1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021, are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinna.in

2 The above audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on June 30 2021. 3 The Statutory Auditors have given a modified opinion on deferment of marketing, promotion and other expenses of Rs.80.43 lakhs inurred during the financial year 2018-19 which has been amortised over period

of three years. The company is part of circular economy where Old Tyre (Waste) is converted into reusable Crumb Rubber and value added products (Wealth). Company has first time participated in 2018-19 as sponsor in exhibitions in India and abroad to meet reputed customers at one platform and incurred expenses on lab test of product to make it of acceptable standards and other marketing and promotion expenses of these product. Benefits of these expenses would realize in next years as well. Hence company has amortised 1/3rd amount Rs. 26.81 lakhs during the year 2018-19, 1/3rd amount Rs. 26.81 lakhs during the year 2019-20 and Rs. 26.81 lakhs during the year 2020-21.

The figures in the consolidated financial results for the guarter and year ended 31st March, 2021 have been approved by the Company's Board of Directors, but have not been subject to audit or review by Statutory Auditors.

FOR TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED

31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

सीआईएन : L65923DL1984PLC019608. पंजीकृत कार्यालय : 3/14 ए प्रथम तल. विजय नगर. डबल स्टोरी, नई दिल्ली-110009

ई-मेलः efficientindustrial@gmail.com, वेबसाइट : www.efficientindustrial.in, दुरभाष नं. : +91-011-27132054

				(रु. लाख	में प्रति शेयर	डाटा छोड़क
क्रम	विवरण	तिथि	र तक समाप्त र्	तिथि तक समाप्त वर्ष		
सं.		31.03.2021	31.12.2020	31/03/2020	31/03/2021	31/03/20
		लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षि
1.	प्रचालनों से कुल आय (निवल)	4.85	0.43	36.87	11.72	47.7
2.	अवधि हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथव	-1.57	-1.39	6.69	0.48	0.1
	असाधारण मदों से पूर्व)					
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथव	-1.57	-1.39	6.69	0.48	0.1
	असाधारण मदों के पश्चात)					
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित	-1.57	-1.39	4.95	0.35	0.0
	तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)					
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर	-1.57	-1.39	4.95	0.35	0.0
_	पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]					
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	763.55	763.55	763.55	763.55	763.
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा गत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है					
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रत्येक के) (सतत तथा असतत					
	प्रचालनों हेतु)	-0.63	-0.56	2.00	0.14	0.0
	1. बेसिक :	-0.63	-0.56	2.00	0.14	0.0
	2. डाइल्यूटेड :					

टिप्पणी

(अ) उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in तथा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट www.efficientindustrial.in पर उपलब्ध है। (ब) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव फुटनोट के माध्यम से प्रकट किया जायेगा। (स) सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

> कृते एवं हिते निदेशक मंडल कृते एफिशिएन्ट इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : दिल्ली

श्री राजकुमार बार्डिया प्रबन्ध निदेशक

Bhupinder Kumar Sekhri **Managing Director**

तिथि : 01.07.2021